

Admission Related FAQ

Q.1 Institute for Excellence in Higher Education (IEHE) की संबंधता किस

विश्वविद्यालय से है?

Ans. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से है।

Q.2 क्या संस्थान शासकीय है ?

Ans जी, हाँ यह एक स्वशासी शासकीय संस्थान है।

Q.3 संस्थान की शिक्षा प्रणाली क्या है ?

Ans संस्थान में सेमेस्टर प्रणाली प्रचलन में है।

Q.4 संस्थान में प्रवेश किस आधार पर किया जाता है ?

Ans संस्थान में प्रवेश मेरिट (12वीं के प्रतिशत) के आधार पर किया जाता है।

Q.5 क्या CBSC आवेदकों को प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाती है ?

Ans नहीं, किसी भी बोर्ड को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। प्रवेश मेरिट के आधार पर होते हैं।

Q.6 संस्थान में प्रवेश पाने के लिये कितने प्रतिशत की आवश्यकता है?

Ans सामान्य श्रेणी एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 60% एवं एस.सी. व एस.टी श्रेणी के लिए 55% होना अनिवार्य है।

Q.7 क्या संस्थान में आन्तरिक मूल्यांकन प्रक्रिया हैं ?

Ans हाँ, संस्थान में आन्तरिक मूल्यांकन प्रक्रिया है।

Q.8 क्या इस संस्थान में हॉस्टल की सुविधा है?

Ans संस्थान में छात्र एवं छात्रा दोनों के लिए पृथक-पृथक हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है।

Q.9 क्या इस संस्थान में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति का प्रावधान हैं ?

Ans संस्थान में मध्य प्रदेश शासन एवं संस्थान स्तर की छात्रवृत्ति का प्रावधान हैं।

Q.10 संस्थान में डिग्री कोर्स के आलावा क्या कोई अन्य कोर्स भी उपलब्ध है ?

Ans हाँ, संस्थान में डिग्री कोर्स के अलावा व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं NPTEL Online Course (National Program on Technology Enhanced Learning) भी उपलब्ध हैं।

Q.11 प्रवेश के लिए कैसे आवेदन करे ?

Ans प्रवेश के लिए संस्थान की वेबसाइट (www.iehe.ac.in) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

Q.12 काउंसलिंग के समय कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी ?

Ans दस्तावेजों हेतु प्रवेश विवरणिका का ऑनलाइन अध्ययन करे।

Q.13 Payment Seat क्या है?

Ans Payment Seat, NRI Seat के रिक्त स्थान पर प्रवेश देने की प्रक्रिया है।

Q.14 क्या अन्य राज्य के आवेदकों के लिए कोई आरक्षण है ?

Ans अन्य राज्य के आवेदकों के लिए प्रत्येक संकाय की कुल सीट का 10 प्रतिशत आरक्षित है।

Q.15 ऑनर्स विषय अन्य विषय से कैसे भिन्न है ?

Ans आनर्स विषय उच्च स्तर का पाठ्यक्रम है इसमें सम्बंधित विषय के दो प्रश्न पत्रों एवं एक अन्य सहायक विषय का एक प्रश्न पत्र का अध्यापन कराया जाता है। जिससे विद्यार्थियों को विषय के बारे में गहन ज्ञान प्राप्त होता है। साथ ही स्नातकोत्तर प्रवेश के गुणानुक्रम में भी लाभ मिलता है।

Q.16 परीक्षा आयोजन का क्या आधार है ?

Ans परीक्षा वर्ष में दो बार सेमेस्टरवार आयोजित होती है।

Q.17 ऑनर्स के कितने प्रश्नपत्र पढ़ाये जाते है ?

Ans ऑनर्स के दो प्रश्नपत्र एवं सहायक विषय का एक प्रश्नपत्र पढ़ाया जाता है।

Q.18 क्या फाउंडेशन कोर्स सभी स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य है?

Ans. हां, अनिवार्य है।